



Ref. No: HSCL / Stock-Ex/2023-24/41

Date: 01/07/2023

E-mail: monika@himadri.com

Ref: Listing Code: 500184 BSE Limited Department of Corporate Services P. J. Towers, 25 th Floor, Dalal Street, Mumbai- 400 001	Ref: Listing Code: HSCL National Stock Exchange of India Ltd Exchange Plaza, C-1, Block-G Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai- 400 051
--	--

Sub: Notice published in Newspaper(s) for Transfer of Equity Shares of the Company to IEPF

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with rule 6(3)(a) of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, the equity shares of the Company in respect of which dividends remained unclaimed or unpaid for 7 (seven) consecutive years or more, are required to be transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund (“IEPF”) as established by the Central Government in terms of Section 125(1) of the Companies Act, 2013. The amount of unpaid dividend for the financial year ended 31 March 2016 and onwards is lying in separate banking accounts for the respective years.

The dividend declared for the financial year ended 31 March 2016 at the Annual General Meeting held on 24 September 2016, is also due to be transferred to IEPF Authority on 30 October 2023, upon expiry of the period of seven years.

Shareholders who has not yet claimed dividend for the financial year ended 31 March 2016 and onwards, if any, are hereby requested to claim such dividend **on or before 29 October 2023**. In case no valid claim is received from the concerned shareholders, the Company will initiate the process to transfer such shares to the IEPF Authority. The dividend declared for the financial year ended 31 March 2016 will also be transferred to the IEPF Authority after expiry of period specified herein.

Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 30 and other applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith a copy of the newspaper advertisement for notice to shareholders for Transfer of Equity shares to IEPF, published in the following newspaper(s):

1. Financial Express (English Daily – All Editions) on 01 July 2023;
2. Arthik Lipi (Daily Newspaper in Vernacular language) on 01 July 2023;
3. Jansatta (Hindi Daily) on 01 July 2023.

You are requested to take the same on record.

Thanking You,

Yours faithfully,
For Himadri Speciality Chemical Ltd

(Company Secretary &
Compliance Officer)
ACS: 29322

Himadri Speciality Chemical Ltd
(Formerly known as Himadri Chemicals & Industries Limited) CIN: L27106WB1987PLC042756
Regd. Office: 23A, Netaji Subhas Road, 8th Floor, Kolkata – 700 001, India
Corp. Office: 8, India Exchange Place, 2nd Floor, Kolkata – 700 001, India
Tel: 91-33-2230-9953, 2230-4363, Fax: 91-33-2230-9051, Website: www.himadri.com

PPFAS Mutual Fund

PPFAS Asset Management Private Limited
(Investment Manager to PPFAS Mutual Fund)

Registered Office: - 81/82, 8th Floor, Sakhar Bhavan, Ramnath Goenka Marg, 230 Nariman Point, Mumbai - 400 021. INDIA.
Tel.: 91 22 6140 6555 Fax: 91 22 6140 6590. E-mail: mf@ppfas.com. Website: www.amc.ppfas.com
CIN No: - U65100MH2011PTC220623

NOTICE CUM ADDENDUM TO THE STATEMENT OF ADDITIONAL INFORMATION (SAI) OF PPFAS MUTUAL FUND ('THE FUND')

Changes in the Valuation Policy:

NOTICE is hereby given that PPFAS Trustee Company Private Limited, the Trustee to PPFAS Mutual Fund and PPFAS Asset Management Private Limited (Investment manager to PPFAS Mutual Fund) has approved the following changes w.e.f. **July 01, 2023** to the Valuation policy of the Fund. The revised valuation policy is uploaded on the website of the PPFAS AMC (www.amc.ppfas.com).

Previous		Current	
Instrument type	Valuation	Instrument type	Valuation
---	---	---	Term of reference of Valuation Committee
Options	In case of Options, premium received/ paid is marked to market based on settlement price on the relevant exchange.	Options	In case of Options, premium received/ paid is marked to market based on settlement price on the relevant exchange. If the settlement price is not available on the relevant exchange, then fair value as determined by the valuation committee shall be used.
Futures	Outstanding contracts in Futures are valued based on the settlement price on the relevant exchange.	Futures	Outstanding contracts in Futures are valued based on the settlement price on the relevant exchange. If the settlement price is not available on the relevant exchange, then the settlement price available on other exchange (NSE or BSE) of identical future contracts will be used for valuation, if the contracts are not identical then the fair value as determined by the valuation committee shall be used.
Application Money for Primary Market Issue:	Application money should be valued at cost up to 30 days from the closure of the issue or traded price whichever is earlier. If the security is not allotted / traded within 30 days from the closure of the issue, application money is to be valued as per the directives of valuation committee, which shall be ratified in the next board meeting. Rationale of valuing such application money should also be recorded	Initial public offering Application	These shall be valued as below : (i) Prior to allotment - at Bid Price. (ii) Post allotment but awaiting listing - at allotment price
Notes to Equity and equity related instruments	In exceptional scenarios wherein due to technical reasons if closing price is not available of a security traded on principal stock exchange on a particular day, then the last traded price on that day (latest available price) of that security on principal stock exchange will be considered for valuation. Secondly, if the latest available traded price is of a trade carried out by PPFAS AMC on behalf of it's schemes on that particular day, then that trade price can be considered for valuation in the absence of availability of closing price / last traded price on principal stock exchange.	Equity and equity related instruments	In case of non-availability of price from the principal stock exchange i.e. National Stock Exchange (NSE), prices as quoted on Bombay Stock Exchange (BSE) will be used for valuation purposes. For this purpose, only NSE & BSE shall be considered as the recognized stock exchanges.
Procedure & Methodology for valuation of corporate action securities	a. Both the shares are traded immediately on de-merger: In this case both the shares to be valued at respective traded prices. b. Shares of only one company continued to be traded on de-merger: In such a scenario, the shares of Non Traded /Unlisted would be fairly valued in good faith by AMC on case to case basis. Traded share to be valued at traded price. c. Both the shares are not traded on de-merger: In such a scenario, the shares of both the companies would be fairly valued in good faith by AMC on case to case basis. In case of any other type of capital corporate action event, the same to be valued at fair price on case to case basis.	Procedure & Methodology for valuation of corporate action securities	Shares of only one company continued to be traded on de-merger The shares of Resulting Company will be valued by residual price methodology which would be the closing value of the shares of De-merged Company on the day before the de-merger less opening value of the shares of De-merged Company immediately post de-merger. If value of the shares of De-merged Company is equal or in excess of the value of pre de-merger shares, then the shares of Resulting Company will be valued at Zero. c. In case there are more than one Resulting Companies along with the De-merged Company and all or some Resulting Companies are unlisted / non-traded: The shares of Resulting Companies will be valued by residual price methodology as explained in point (b) above. The residual value will be allocated into Resulting Companies in the ratio provided as a part of scheme of arrangement or such other ratio as decided by the Valuation Committee. If one of the Resulting Companies is listed / traded, the residual value of unlisted / non-traded Resulting Companies would be further determined by reducing the traded value of listed Resulting Companies from the residual value computed as above.
Procedure & Methodology for valuation of corporate action securities	---	Procedure & Methodology for valuation of corporate action securities	d. Both the shares are not traded on de-merger. The traded value of the De-merged Company on the day before the de-merger will be allocated between De-merged Company and Resulting Companies in the ratio provided as a part of scheme of arrangement or such other ratio as decided by the Valuation Committee. Cost allocation would be done proportionate to the derived value of the resultant scrips or other appropriate basis to be decided on case to case basis depending on the terms of de-merger. The valuation committee may in specific cases decide to use a different method for valuation by assigning reasons therefore. e. In case of merger, if the shares of the merged entity are not listed / traded, then valuation of the merged entity will be decided on case to case basis depending on the terms of merger and may be valued at previous day closing price of the respective companies prior to merger.
Right entitlement	Non traded rights entitlement will be valued as difference between the value of the underlying equity share (determined as per valuation policy) and the rights offer price. In case the rights offer price is greater than the ex-rights price, the value of the rights share is to be taken as zero.	Right entitlement	Non traded rights entitlement will be valued as difference between the value of the underlying equity share (determined as per valuation policy) and the rights offer price. In case the rights offer price is greater than the ex-rights price, the value of the rights share is to be taken as zero. In case the rights offer price is greater than the ex-rights price, the value of the rights share is to be taken as zero.
---	---	Interest rate future (IRF)	All IRFs will be valued at daily settlement price on exchange or any other recognized stock exchange i.e. NSE and BSE.
Valuation of Foreign Securities:	"If the security is listed in a time zone ahead of India, then the same day's closing price would be used for valuation. If the security is listed in a time zone behind India, then the previous day's price would be used for valuation." On the Valuation Day, all assets and liabilities denominated in foreign currency will be valued in Indian Rupees at the exchange rate available on Reuters / RBI (Financial Benchmarks India Ltd- FBIL) / Bloomberg. Trustees reserve the right to change the source for determining the exchange rate.	Valuation of Foreign Securities:	Foreign securities shall be valued based on the same day closing price. On the valuation day, all assets and liabilities denominated in foreign currency will be valued in Indian Rupees at the exchange rate available on Bloomberg. If the exchange rate is not available on Bloomberg then the RBI reference rate will be considered. The Trustees reserve the right to change the source for determining the exchange rate.
Valuation of IDR/ADR/ GDR:	If the security is listed/ traded in a time zone ahead of India, then the same day's closing price would be used for valuation. If the security is listed/traded in a time zone behind India, then the previous day's price would be used for valuation.	Valuation of IDR/ADR/ GDR:	IDR/ADR/GDRs securities shall be valued based on the same day closing price
---	---	Annexure 1- Policy on Inter scheme transfer(s):	Listed Equity Shares : - Last traded price to be considered for Inter scheme security quoted on primary stock exchange. In case the last traded price is not available on primary stock exchange then secondary stock exchange price will be considered.

Note: - Procedure & Methodology for valuation of thinly traded equity or non-traded equity and unlisted equity are updated as per SEBI Regulation. The relevant sections of SAI shall stand modified in accordance with the above. This addendum shall form an integral part of the SAI as amended from time to time. All other features, terms and conditions mentioned in the SAI remain unchanged.

For PPFAS Asset Management Private Limited
(Investment Manager to PPFAS Mutual Fund)

Place: Mumbai
Date: June 30, 2023

Sd/-
Director

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.



Himadri Speciality Chemical Ltd

CIN: L27106WB1987PLC042756
Regd. Office: 23A, Netaji Subhas Road, 8th Floor, Kolkata - 700 001
Corp. Office: 8, India Exchange Place, 2nd Floor, Kolkata - 700 001
Ph No: 91-033-22309953/ 22304363 Fax: 91-033-22309051, Website: www.himadri.com

NOTICE

Sub: Transfer of Equity shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

NOTICE pursuant to Section 124(6) of Companies Act, 2013 read with Rule 6(3)(a) of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 is hereby given that the equity shares of the Company in respect of which dividends remained unclaimed or unpaid for 7 (seven) consecutive years or more, are required to be transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) as established by the Central Government in terms of Section 125(1) of the Companies Act, 2013. The amount of unpaid dividend for the year ended 31 March 2016 and onwards is lying in separate banking accounts for the respective years.

We further inform that the dividend declared for the financial year ended 31 March 2016 at the Annual General Meeting held on 24 September 2016, is due to be transferred to IEPF Authority on **30 October 2023**, after expiry of the period of seven years.

NOTICE IS FURTHER GIVEN that those shareholders who has not claimed dividend for the year ended 31 March 2016 and onwards, if any, are being provided an opportunity to claim such dividend by sending a letter under their signature along with one cancelled cheque/Bank details, claiming the amount of unpaid dividend, so as to reach with the Company's Registrar & Share Transfer Agent, **M/s S.K. Infosolutions Pvt. Ltd, D/42, Katju Nagar Colony, Ground Floor, Near South City Mall, PO & PS - Jadavpur, Kolkata - 700 032 on or before 29 October 2023.** The details of those shareholders who has not claimed dividend for consecutive period of seven years or more and the relevant details of shares due to be transferred to the IEPF Authority, is available on Company's website at www.himadri.com under Investors Section. If valid claim is not received from the concerned shareholders within the period as provided herein, the Company shall take necessary steps towards transfer of those shares to the IEPF Authority. The dividend declared for the financial year ended 31 March 2016 will also be transferred to the IEPF Authority after expiry of period specified herein.

The shareholders may note that both the unclaimed dividend and the shares after being transferred to IEPF Authority can be claimed back from the IEPF Authority by filing the web Form IEPF -5 and following the procedure as prescribed thereunder by the IEPF Authority. No claim shall lie against the Company in respect of unclaimed/ unpaid dividend and shares after the same is being transferred to IEPF Authority. The shareholders who has any query or anything to communicate to the Company in respect of the above, may write to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s S. K. Infosolutions Private Limited, (Attention: Mr. Dilip Bhattacharya) D/42, Katju Nagar Colony, Ground Floor, Near South City Mall, PO & PS - Jadavpur, Kolkata - 700 032 (Tel: 033-24120027 / 033-24120029, e-mail Id: skdilip@gmail.com.)

For Himadri Speciality Chemical Ltd
Sd/-
Monika Saraswat
Company Secretary & Compliance Officer
ACS : 29322

Place: Kolkata
Date : 30.06.2023



Regd. office: 3rd Floor, Maker Chambers IV, 222, Nariman Point, Mumbai - 400 021.
Phone: 022-3555 5000. Email: investor.relations@ril.com
CIN: L17110MH1973PLC019786

NOTICE

NOTICE is hereby given that the following certificate(s) issued by the Company are stated to have been lost or misplaced and Registered Holders thereof have applied for the issue of duplicate certificate(s).

Sr. No.	Folio No.	Name / Joint Names	Shares	Certificate Nos. From - To	Distinctive Nos. From - To
1	24902391	Atul U Jota	150	13224855-857	290589235-384
			18	58487471-471	1627324375-392
			168	66646351-351	6873295295-462
2	53544657	Grish Madharao Elkunchwar Gauri Grish Elkunchwar	20	11422109-109	205811390-409
			20	50895075-075	1164854904-923
			9	58484964-964	1626144559-567
			9	58522428-428	1627502279-287
			58	62488450-450	2209793237-294
			116	66749279-279	6883725447-562
3	33646895	Hira Lal Ahuja	20	4327786-786	69765019-038
			232	66457214-214	685781868-099
4	125997689	Nozer M Behramkandin Freny N Behramkandin	63	59127708-708	1588216915-977
			63	62447657-657	2206481186-248
			126	66700287-287	6879401078-203
5	9404678	Priti Chandrakant Amin Krina Chandrakant Amin	800	66914916-916	6898500358-157
6	9584625	Ramana Devi Potturi	348	54824764-771	1328842013-360
7	57756365	Shewak Dembla Khilna Dembla Tanuja Dembla	45	10662118-118	190706572-616
			90	62223863-863	2186486772-861
			180	66419356-356	6854493170-349
8	31939542	Una Shariker Choudhary	20	4096930-930	65147899-918
			5	7301545-545	145611413-417
			10	10081982-982	181797487-496
			6	12362246-246	255742439-444
			41	53437710-711	120497415-455
			82	62276701-701	2190667999-080
			164	66486942-942	6860080705-868
		Total			

The Public is hereby warned against purchasing or dealing with these securities any way. Any person(s) who has / have any claim in regard of the securities, should lodge such claim with the Company's Registrar and Transfer Agent viz. **"KFin Technologies Limited"**, Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakranga, Hyderabad - 500 032, **within Seven (7) days** from the date of publication of this notice, failing which, the Company will proceed to issue letter(s) of confirmation in lieu of duplicate certificate(s) in respect of the aforesaid securities.

for Reliance Industries Limited
Sd/-
Savitri Parekh
Company Secretary and Compliance Officer
www.ril.com

Place : Mumbai
Date : June 30, 2023



Edelweiss House, Off C.S.T Road, Kalina, Mumbai – 400098

NOTICE CUM ADDENDUM TO THE SCHEME INFORMATION DOCUMENT (SID) AND KEY INFORMATION MEMORANDUM (KIM) OF THE DESIGNATED SCHEMES OF EDELWEISS MUTUAL FUND

MERGER OF EDELWEISS ETF - NIFTY BANK WITH EDELWEISS NIFTY LARGE MIDCAP 250 INDEX FUND

Notice is hereby given to all the Investors/Unit holders that Edelweiss Trusteeship Company Limited, the Trustee to Edelweiss Mutual Fund ("the Fund"), has approved the merger of Edelweiss ETF - Nifty Bank (An open ended scheme tracking Nifty Bank Index) [hereinafter referred to as **"Merging scheme"**] with Edelweiss Nifty Large Midcap 250 Index Fund (An open ended equity scheme replicating Nifty LargeMidcap 250 Index) [hereinafter referred to as **"Surviving scheme"**]. The record date for the above merger is August 7, 2023 (**"Effective Date"**).

From the Effective Date, the Merging scheme will cease to exist and the Unit holders of the Merging scheme will become Unit holders of the Surviving scheme in the designated Plans/Options. Further, no fresh subscription will be accepted in the Merging scheme with effect from July 06, 2023.

The Securities and Exchange Board of India has vide its email dated June 12, 2023 conveyed it's no objection to the aforesaid merger. Pursuant to SEBI circular dated June 23, 2003, the merger will be treated as change in fundamental attributes of the Merging scheme and Surviving scheme.

In terms of the prevailing regulatory requirements, Merging scheme will be delisted two business days prior to the closure of the Exit Option Period for which necessary circulars will be issued by the exchanges and all the existing Unit holders of Merging scheme and Surviving Scheme, who do not agree with the proposed merger, are given an option to exit i.e. redeem their units (fully or partly) or switch to other scheme(s) of the Fund at the Applicable NAV of the Scheme without any exit load for a period of 30 days starting from July 6, 2023 till August 4, 2023 (both days inclusive) (hereinafter referred to as **"exit option period"**). Since all the units of the Merging scheme are in demat mode, redemption requests, if any, on AMC's platform, can be submitted only with the Depository Participants who in turn will record the same with the Registrar and Transfer Agents of the Fund viz. KFin Technologies Limited. Investors of Surviving scheme can submit the redemption/switch-out requests at any of the Investor Service Centres of the Fund or the Registrar and Transfer Agents of the Fund viz. KFin Technologies Limited during the exit option period. Unit holders who hold the units of the Surviving scheme in electronic (demat) mode need to submit the redemption request to their Depository Participant.

The redemption will be processed at the Applicable NAV for the day on which redemption request is received as per applicable cut-off timing guidelines. The redemption proceeds will be paid out either electronically or by a cheque within 3 Business Days of receipt of valid redemption request.

In case of any pledge / lien / other encumbrance marked on any units in Merging scheme, the same shall be marked on the corresponding number of units allotted in Surviving scheme.

It may however be noted that the offer to exit is purely optional and not compulsory. If the Unit holder has no objection to the aforesaid merger, no action is required to be taken and it would be deemed that such Unit holder has consented to the merger of the Scheme.

Unit holders who do not exercise the exit option on or before August 4, 2023 would be deemed to have consented to the proposed merger and will be allotted units under Direct Plan – Growth Option of the Surviving scheme as on the close of business hours on Effective Date. The Units allotted to the unit holders in the Surviving scheme shall be treated as fresh subscriptions in the Surviving scheme. Further, the date of allotment at the time of subscription in the Merging scheme shall be considered as the allotment date for the purpose of applicability of the exit load period at the time of redemption of such units under the Surviving scheme.

The Finance Act, 2015 amended the provisions of the Income-tax Act, 1961, providing tax neutrality on transfer of units of a scheme of a mutual fund under the process of consolidation of schemes of mutual funds as per SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.

As per section 47(xviii) of the Income-tax Act, 1961, allotment of units in Surviving scheme, pursuant to merger, to unit holders of Merging scheme who decide to continue will not be considered as redemption of units in Merging scheme and will not result in any capital gain / loss in the hands of the unit holders. Further, the period for which the units in the Merging scheme were held by the Unit holders will be included in determining the period for which such units were held by the unit holder and the cost of acquisition of units allotted in Surviving scheme pursuant to merger will be the cost of acquisition of units in Merging scheme.

However, redemption of units from the Surviving scheme and/or switch-out of units of the Merging scheme to any other scheme of the Fund during the exit period option shall be considered as redemption in Merging scheme and will result in short term/long term capital gain/loss in the hands of the unit holders depending on the type and period of holding of the investment. In case of NRI investors, TDS shall be deducted in accordance with applicable tax laws for redemption/switch-out of units from Merging scheme during the exit period and same would be required to be borne by such investor only. Securities Transaction Tax (STT) on redemption / switch-out of units, if any, exercised during the Exit Option Period or on extinguishment of units under Merging scheme of Edelweiss MF and allotment under the Surviving scheme upon merger of schemes, shall be borne by the AMC.

In order to evaluate the individual nature of taxation and financial implications arising out of their participation in merger of schemes, unit holders are advised to consult his/her/their professional tax advisors/consultants.

A detailed communication in this regard will be sent to the unit holders of the Merging scheme and Surviving scheme as on June 30, 2023, through an appropriate mode of communication (post, courier, email etc.).

Unit holders of Merging scheme are requested to read the detailed features of Surviving scheme i.e. Edelweiss Nifty Large Midcap 250 Index Fund as stated in the Scheme Information Document which is available on the website – www.edelweissmf.com and at the Investor Service Centres of the Fund to take a well-informed decision.

For any further assistance/clarification, Unit holders may contact us on 1-800-425-0090 (Toll free – BSNL/MTNL lines only) or 91 040 23001181 (non MTNL/BSNL lines and mobile phone users) or alternatively, email us at **EMFHelp@edelweissmf.com** or visit our website www.edelweissmf.com.

For Edelweiss Asset Management Limited
(Investment Manager to Edelweiss Mutual Fund)

Place : Mumbai
Date : June 30, 2023

Sd/-
Radhika Gupta
Managing Director & CEO
(DIN: 02657595)

For more information please contact:

Edelweiss Asset Management Limited (Investment Manager to Edelweiss Mutual Fund)
CIN: U65991MH2007PLC173409
Registered Office & Corporate Office: Edelweiss House, Off C.S.T Road, Kalina, Mumbai – 400 098.
Tel No: +91 22 4097 9737, Toll Free No. 1800 425 0090 (MTNL/BSNL), Non Toll Free No. 91 40 23001181, Fax: +91 22 40979878, Website: www.edelweissmf.com

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

खबर कोना

पत्नी की हत्या कर युवक ने की खुदकुशी

मुजफ्फरनगर, 30 जून (जनसत्ता)।

जिले के भोपा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को तड़के एक युवक ने अपनी पत्नी की गोली मार कर कथित तौर पर हत्या कर दी और फिर खुदकुशी कर ली। पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) अतुल श्रीवास्तव ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि मुजफ्फरनगर जिले के भोपा थाना इलाके के मखियाली गांव निवासी नसीम मलिक (26) की शादी पांच माह पूर्व गाजियाबाद के लोनी की नरगिस (25) के साथ हुई थी। श्रीवास्तव के अनुसार, पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा था, जिसके निपटारे के लिए शुक्रवार की सुबह दोनों भोपा थाना क्षेत्र के ही गददला गांव निवासी सद्दाम के घर पहुंचे, लेकिन सद्दाम उन्हें नहीं मिला।

इटावा : बिजली गिरने से किसान की मौत

इटावा, 30 जून (जनसत्ता)।

इटावा जिले के भरथना इलाके के ढकपुरा गांव में शुक्रवार को बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी। बिजली गिरने के बाद घायल किसान को नाजुक हालत में भरथना के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उसके परिजन लेकर के पहुंचे लेकिन चिकित्सकों ने नाजुक हालत बताकर के भीमवार अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय स्थानांतरण कर दिया, जहां उसकी मौत हो गई। किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। चिकित्सक भीमवार अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय के आपातकालीन में तैनात डा वरुण चौधरी ने बताया कि किसान राकेश कुमार (40) को जब उपचार के लिए लाया गया तब उनके शरीर में जीवित होने के कोई लक्षण नहीं थे इसी आधार पर उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

केंद्र के आदेश के खिलाफ ट्विटर की याचिका खारिज, 50 लाख का जुर्माना

बंगलुरु, 30 जून (भाषा)।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ट्विटर इंक की उस याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया जिसमें कंपनी ने सामग्री (कंटेंट) हटाने और ब्लाक करने संबंधी इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विभिन्न आदेशों को चुनौती दी थी। अदालत ने, इसके साथ ही कहा कि कंपनी की याचिका का कोई आधार नहीं है।

न्यायमूर्ति कृष्ण एस. दीक्षित की एकल पीठ ने ट्विटर कंपनी पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और इसे 45 दिन के भीतर कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराने का आदेश दिया।

अदालत ने फैसले के मुख्य हिस्से को पढ़ते हुए कहा, ‘उपरोक्त परिस्थितियों में यह याचिका आधार रहित होने के कारण कठोर जुर्माने के साथ खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है। याचिकाकर्ता पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, जो 45 दिन के अंदर

देश

प्रदेश में 54 लाख गरीबों को मिला मकान : योगी

प्रयागराज, 30 जून (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुकंपा से पिछले छह साल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के 54 लाख गरीबों को अपना मकान मिला है।

माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बने 76 मकानों/फ्लैट के चाबी वितरण और 768 करोड़ रुपए की 226 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से छह साल पहले तक इस योजना के तहत एक भी गरीब को आवास नहीं मिलता था।

पूर्ववर्ती सपा और बसपा सरकारों पर निशाना साधते हुए योगी ने कहा कि उस वक्त गरीबों को आवास इसलिए नहीं मिलता था, क्योंकि प्रदेश की मौजूदा सरकार गरीबों के बारे

गडकरी ने की दिग्विजय की सराहना

पुणे, 30 जून (भाषा)।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पुणे शहर के निकट एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के साथ मंच साझा किया और प्रति वर्ष पंद्रहपुर धार्मिक यात्रा में शामिल होने के लिए सिंह की सराहना की।

सोलापुर जिले के पंद्रपुर शहर में भगवान विठ्ठल और देवी रुक्मिणी के मंदिर हैं और सिंह प्रति वर्ष ह्यआषाढ़ी एकादशीके दिन पूजा-अर्चना के लिए पंद्रपुर जाते हैं। भगवान विठ्ठल के श्रद्धालु वारकरी कहलाते हैं। ये लोग राज्य के अलग-अलग हिस्सों से निकाली जाने वाली शोभायात्रा में भाग लेते हैं। यह यात्रा ह्यआषाढ़ी एकादशीके मौके पर पंद्रपुर शहर में संपन्न होती है। गडकरी और सिंह कांग्रेस के दिवंगत नेता रामकृष्ण मोरे पर एक पुस्तक के विमोचन के लिए गुरुवार को यहां के निकट पिंपरी चिंचवाड में मौजूद थे। अपने संबोधन में गडकरी ने प्रति वर्ष आषाढ़ी एकादशी पर पंद्रपुर आने के लिए सिंह की सराहना की।

ट्विटर का कदम डोर्सी की काल्पनिक कहानी का हिस्सा : राजीव चंद्रशेखर

नई दिल्ली, 30 जून (भाषा)।

कुछ खातों को ब्लाक करने के सरकारी नोटिस को अदालत में चुनौती देने का ट्विटर का फैसला दरअसल उस ‘काल्पनिक कहानी का हिस्सा था’, जिसे कंपनी के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने आगे बढ़ाया। इलेक्ट्रानिक्स और आइटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शुक्रवार को यह बात कही। ट्विटर के सीईओ का पद छोड़ चुके डोर्सी ने हाल में दावा किया था कि भारत सरकार ने विभिन्न ‘पोस्ट’ को हटाने और खातों को प्रतिबंधित करने के अनुरोधों का पालन नहीं करने पर कंपनी को बंद करने और कर्मचारियों पर छापे की चेतावनी देते हुए ‘दबाव’ डाला था। जिन ‘पोस्ट’ और खातों को हटाने के लिए कथित रूप से दबाव बनाया गया था, वे 2020 और 2021 में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध-प्रदर्शन और सरकार की आलोचना से संबंधित थे।

ट्विटर की अपील को खारिज करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा कि आदेश स्पष्ट रूप से बताता है कि सरकारी आदेश का पालन नहीं करने का कोई विकल्प नहीं है और छोटे या बड़े, सभी मंचों को भारतीय कानून का पालन करना होगा। उन्होंने ब्राडवैड इंडिया फोरम के एक कार्यक्रम के मौके पर बताया, ‘जैसा कि आपको पता है, इस विशेष मामले में उन्हें (ट्विटर को) कानून के तहत बड़ी संख्या में निर्देश दिए गए थे, जिनका उन्होंने पालन नहीं किया और फिर जब उन्हें कानूनी नोटिस भेजा गया तो उन्होंने अदालत में जाने का फैसला किया।

हिमاد्री स्पेशियलिटी केमिकल लि. <p>CIN: L27106WB1987PLC042756</p> पंजी. कार्या.: 23ए, नेताजी सुभाष रोड, 8वीं मंजिल, कोलकाता- 700 001 कारपोरेट कार्यालय: 8, इंदिरा एक्सप्रेस जंसे, द्वितीय तल, कोलकाता- 700 001 फोन: 91-033-22309953/22304363; फैक्स: 033-22309051, वेबसाइट: www.himadri.com
सूचना
विषय: निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) को इक्विटी शेयरों का हस्तान्तरण
निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 के नियम 6(3)(1ए) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के अनुसार एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि जिन इक्विटी शेयरों का समापन सात वर्षों या उससे अधिक समय तक लाभांश का दावा न किया गया हो या भुगतान न किया गया हो उसके संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है। 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष और उसके बाद के अवैतनिक लाभांश की राशि संबंधित विवरण कंपनी की वेबसाइट www.himadri.com पर निवेशक अनुभाग के तहत उपलब्ध है। यदि यहां दी गई अवधि के भीतर संबंधित शेयरधारकों से वैध दावा प्राप्त नहीं होता है, तो कंपनी उन शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तान्तरित करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाएगी। 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए घोषित लाभांश भी यहाँ निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तान्तरित किया जाएगा। शेयरधारक ध्यान दें कि आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तान्तरित होने के बाद दावा न किए गए लाभांश और दावा न किए गए शेयरों दोनों को आईईपीएफ प्राधिकरण से वैध फॉर्म आईईपीएफ- S दक्षिण कर- के और उसके तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस दावा किया जा सकता है। दावा न किए गए/अवत लाभांश के संबंध में और शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण की हस्तान्तरित किए जाने के बाद कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं होगा। जिन शेयरधारकों के पास उपरोक्त के संबंध में कंपनी को संप्रेषित करने के लिए कोई प्रश्न या कुंझ है, वे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स एस्के इन्फोसोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड, (संपर्क: श्री दिलीप भट्टाचार्य) डी/42, काटजू नगर कॉलोनी, धरातल, साउथ सिटी मॉल के पास, पीओ और पीएस- जादवपुर, कोलकाता- 700 032 (दूरभाष: 033-24120027/033-24120029, ई-मेल आईडी: skcdilip@gmail.com) को लिख सकते हैं।
कृते हिमद्री स्पेशियलिटी केमिकल लि. हस्ता./- मोमिका सारखत, कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी, एम।एस.: 29322
स्थान: कोलकाता <p>दिनांक: 30.06.2023</p>

देश

आदित्यनाथ ने कहा कि इसमें 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। अगर ये माफिया होते तो हमारे पास एक कौड़ी का भी निवेश नहीं आता। इस निवेश से एक करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी।

वहीं, लोकसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में उन्होंने जनता से कहा कि यह ऐसा समय है कि हम किसी के बहकावे में न आएँ। यह देश नारों से नहीं चलेगा, बल्कि जमीनी हकीकत से चलेगा। जमीनी हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम करके दिखाया है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद आगे भी मिलता रहेगा, ऐसी कामना है। उप मुख्यमंत्री मौर्य के सुझाव पर मुख्यमंत्री ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन को प्रयागराज में 10,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाले एक कनवेंशन सेंटर का डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया।

कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने भी संबोधित किया।

अलग-अलग सड़क हादसों में ग्यारह की मौत

बांदा/फिरोजाबाद, 30 जून (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के बांदा व फिरोजाबाद जिले में हुए सड़क हादसों में ग्यारह लोगों की मौत हो गई। बांदा जिले के बबेरू कोतवाली क्षेत्र में तेज गति से जा रहे वाहन के खड़े ट्रक से टकराने के कारण सात लोगों की मौत हो गई व एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बबेरू क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) राकेश कुमार सिंह ने शुक्रवार को बताया कि परडयादायी मंदिर के नजदीक गुरुवार की रात करीब साढ़े नौ बजे तेज रफ्तार से जा रहा एक वाहन (बोलरो जीप) सड़क के किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया। हादसे में जीप सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और दो लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में घायल एक व्यक्ति का इलाज मेडिकल कालेज बांदा में चल रहा है। मृतकों की पहचान शकील (25), मुशाहिद (24), मोहम्मद कैफ (18),

तेलंगाना : भाजपा नेता के ट्वीट पर विवाद

हैदराबाद, 30 जून (भाषा)।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता एवं लोकसभा के पूर्व सदस्य एपी जितेंद्र रेड्डी द्वारा ट्विटर पर डाले एक वीडियो से विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो में एक व्यक्ति ट्रक में चढ़ने के लिए ‘याक’ को लात मारते हुए दिख रहा है। नेता ने वीडियो साझा करते हुए लिखा कि पार्टी के तेलंगाना नेतृत्व को भी इसी तरह के व्यवहार की जरूरत है। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ने गुरुवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं अमित शाह, सुनील बंसल, बीएल संतोष और पार्टी मुख्यालय को ‘टैग’ करते हुए ट्वीट किया, ‘भाजपा के तेलंगाना नेतृत्व को इसी व्यवहार की जरूरत है ही’ रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना भाजपा प्रमुख बंदी संजय के नेतृत्व पर सवाल उठाने वालों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए। लेकिन उनकी बात को गलत समझ लिया गया है।

 DHANUKA AGRITECH LIMITED <p>CIN: L24219DL1985PLC020126</p> Registered Off.: 82, Abhinash Mansion, 1st Floor, Joshi Road, Karol Bagh, New Delhi 110 005 Phone No.: 011-2353 4551
Corporate Office: Global Gateway Towers, MG Road, Near Guru Dronacharya Metro Station, Gurugram-122 002
Email: investors@ghanuka.com Website: www.dhanuka.com
INFORMATION REGARDING 38TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM) AND FOR UPDATION OF EMAIL ADDRESSES
Members may please note that 38th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through VC/OAVM on Wednesday, 02nd August 2023 at 11:00 A.M (IST) , in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No. 14/2020 dated 08 th April, 2020, 17/2020 dated 13 th April, 2020, 20/2020 dated 05 th May, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being circular No. 10/2022 dated December 28, 2022, issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 issued by SEBI and other applicable circulars issued in this regard, to transact the businesses that will be setforth in the Notice of the AGM.
In compliance with the above Circulars, electronic copies of Notice of the 38th Annual General Meeting (AGM) and integrated Annual Report for the Financial Year (FY) 2022-23 will be sent electronically to those Members who have registered their email IDs with the Company / M/s Abhipra Capital Ltd. (‘RTA’) and Depository Participant(s) (‘Depository’). The same will also be available on the website of the Company at www.dhanuka.com , Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of CDSL at www.cdslindia.com . The physical copies of the Notice of 38 th AGM alongside integrated Annual Report for the FY 2022-23 shall be sent to those Members who request for the same.
1. Manner of registering/ updating email addresses to receive the Notice of 38th AGM alongside Integrated Annual Report 2022-23:
<ul style="list-style-type: none">Members holding shares in physical mode and who have not updated their email address with the Company are requested to update their email address on or before 5:00 PM (IST) as on the cut-off date (record date) i.e. 07th July 2023, for registering their email addresses to receive the Notice of AGM and Annual Report 2022-23 electronically and to receive login ID and password for e-voting by writing to the Company at investors@dhanuka.com/ RTA at rita@abhipra.com alongside copy of the request letter signed by the members mentioning the name and address, self-attest copy of the permanent account number (PAN) and self attested copy of any document, (e.g. Aadhaar Card, Driving License, Voter Identity Card, Passport) in support of the address of the member. Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/update their email address with the relevant depository participant (DP).
2. Manner of casting vote through e-voting
<ul style="list-style-type: none">Members will have an opportunity to cast their votes remotely on the businesses as may best forth in the Notice of the AGM through remote e-voting system. The login credentials for casting the votes through e-voting shall be made available to the Members through the various modes as may be provided in the notice as well as through email after successfully registering their email addresses. The details will also be made available on the website of the Company
3. Manner of registering KYC including bank details for receiving Dividend:
For Members holding shares in physical mode ,SEBI vide its Circular dated 3rd November, 2021 has mandated registration of PAN, KYC details and Nomination. Members holding shares in physical for are, therefore, requested to submit their PAN, KYC details including Bank details and Nomination details to M/s Abhipra Capital Limited at Abhipra Complex A-387, Dilkhush Indl Area, G.T. Karnal Road, Azadpur, Delhi 110033 or at rita@abhipra.com / abhinav@abhipra.com by sending a duly filled Form IISR-1 and other relevant forms(available on the Website of the Company at www.dhanuka.com) from their registered email ID.
<ul style="list-style-type: none">Members holding shares in dematerialized mode are requested to update their complete bank details with their DPs to avoid delay in receiving the dividend. Members holding shares in dematerialized mode are requested to update their complete bank details with their DPs to avoid delay in receiving the dividend.
For Dhanuka Agritech Limited Sd/- Jitin Sadana Company Secretary and Compliance Officer FCS-7612
Place: Gurugram Company Secretary and Compliance Officer
Dated: 30.06.2023 FCS-7612

फॉर्म-3
[विनियम-1५(1)(ए) 1५(1)3] देखें
ऋण वसूली न्यायाधिकरण, कोलकाता (डीआरटी)
9वां तल, जीवन सुधा भवन, 42मी, जे. एल. नेहरू रोड, कोलकाता-700071
मामला नं. ओए/148/2022
ऋण वसूली न्यायाधिकरण (विधि) नियमों, 1993 के नियम 5 के उप नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (4) के अधीन सभ्य
ईसम्पन्न नं.: 3104
एचडीएफसी बैंक
बनाम
रेजा हुसैन
प्रति,
(1) रेजा हुसैन डी/डब्ल्यू/एस/ओ- एस/ओ- मोनारफ हुसैन अदालत बरकर, कुटी, निजट रुचि आरत क्रोम फैक्ट्री बर्दवान, पश्चिम बंगाल- 71 3324
सभ्य
चूँकि, दिनांक 20.05.2023 को ओए/148/2022 माननीय पीठासैन अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध हुआ था।
चूँकि, यह माननीय न्यायाधीशरूप द्वारा राशि 2494007.441- रूपए के ऋणों को वसूली के लिए आपके विरुद्ध दायित्व (ओए) में अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत कथित आवेदन पर समन-नोटिस जारी करता है। (दस्तावेजों को प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न है)।
चूँकि, ओए की धारा 19 की उप धारा (4) के तदनुसार, प्रतिवादी को नीचे दिए अनुसार निर्देश दिया जाता है:-
(i) समन की सेवा के 30 दिनों के अंदर यह कारण बताया होना कि विरुद्धे लिए दावत की प्रार्थना की गई है वह क्यों प्रदान नहीं की जानी चाहिए।
(ii)मूल आवेदन की क्रम संख्या 3ए के अंतर्गत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट संबंधितों तथा परिसंपर्कियों के अलावा संबंधितों तथा परिसेंपर्कियों का विवरण प्रदर्शित करना।
(iii) अपेक्षित मूल आवेदन की क्रम संख्या 3ए के अंतर्गत प्रदर्शित की गई प्रतिभूतित परिसेंपर्कियों या ऐसी किसी अन्य परिसेंपर्कियों तथा संबंधियों के साथ लेन-देन और निपटारा करने से प्रतिबंधित किया जाता है, साथ जुड़ी हुई संबंधितों के लिए आवेदन की सुनवाई एवं निपटारा लिखित है।
(iv)आप न्यायाधिकरण के पूर्व अनुमोदित के बिना मूल आवेदन की क्रम संख्या 3ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट या प्रदर्शित किसी परिसेंपर्ति या किसी अन्य संबंधियों, जिन पर प्रतिभूति ब्याज सृजित किया है, पर अपने व्यापार के सामान्य कोसे के जोड़कर बिक्री, लीज या अन्यथा तरीके द्वारा संपत्ति का हस्तान्तरण नहीं कर सकते।
(v)आप व्यापार के सामान्य कोसे में प्रतिभूति परिसेंपर्कियों या अन्य परिसेंपर्कियों तथा संबंधियों की बिक्री द्वारा बिक्री प्रक्रिया से वसूली और ऐसी परिसेंपर्कियों के ऊपर प्रतिभूति ब्याज को धारण करने वाले बैंक या वित्तीय संस्थानों के साथ रूठे गए खाते में ऐसी बिक्री प्रक्रिया की राशि को जमा करने के उतरदायी होंगे।
आपको आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई उस प्रति के साथ लिखित बयान को दायित्व करने तथा दिनांक 27.07.2023 को पूर्वाह्न 10.30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसमें आरफूल होने पर आवेदन की सुनवाई और नियंत्रण आपको अनुपस्थिति में किया जाएगा।
मेरे हस्ताक्षर व इस न्यायाधिकरण की मुहर के अधीन 12.06.2023 को जारी किया गया।
सभ्य जारी करने वाले प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर प्राधिकृत रजिस्ट्रार ऋण वसूली न्यायाधिकरण-1, कोलकाता